

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(सितम्बर 2017)

स्वच्छता से ही अंबिकापुर का देश में बज रहा डंका

स्वच्छता ही सेवा के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मल्टीपरपज स्कूल में जनप्रतिनिधियों गणमान्य नागरिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति में स्वच्छता की शपथ लेकर शपथ पत्र हस्ताक्षर किए अतिथियों द्वारा स्वच्छता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।

मैदान में अभियान चलाकर निगम ने कराई साफ-सफाई

शहर की बजबजाती नालिया सड़को पर बिखरे पड़े धूल व लोगों द्वारा खुले में फेंके गए कचरों को नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर साफ-सफाई कराई जा रही है। निगम आयुक्त द्वारा जहां सड़को पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है वही जुर्माना भी वसूला जा रही है। शुक्रवार को शहर के गांधी स्टेडियम सहित अन्य जगहों पर भारी संख्या में निगम कर्मचारियों लगाकर साफ-सफाई कराई गई। गौरतलब है कि वन विभाग द्वारा कर्मचारी भर्ती आयोजन के बाद गांधी स्टेडियम में कचरा व झूठन छोड़कर चले गए थे। इससे वहां आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसकी जानकारी वन विभाग के आला अधिकारियों को भी थी लेकिन उनके द्वारा कचरा हटाने की तरफ कोई पहल नहीं किया जा रहा था।

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर

सम्पर्क हेतु नंबर –

निदान 1100 –

सफाई, पानी, सड़क बत्ती, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संबंधित शिकायत दर्ज करवाने सम्पर्क करे.

कार्यालय का पता –

नगर पालिक निगम प्रशासनिक भवन, केदारपुर पानी टंकी
अम्बिकापुर (छ.ग.)